

टी.बी. मुक्त ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय का योगदान



Governor Smt. Anandiben Patel

महामहीम राज्यपाल के मार्गदर्शन में जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर ने टी.बी. ग्रस्त बच्चों को गोद लिया है इन बच्चों के स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वविद्यालय कार्यरत हैं।



राज्यपाल श्रीमती आंनदीबेन पटेल 19.06.2018 को ग्वालियर में टी.बी. मरीजों को गोद लेने के संम्बध में कुलपति एवं अधिकारियों से चर्चा करते हुऐ।



जीवाजी विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला अधिकारियों एवं शिक्षकों से टी.बी. मरीजों को गोद लेने की कार्यप्रणाली पर चर्चा करते हुऐ।

S. No.	Name	Age/Sex	University Caretaker
1	Ms. Alisha	3/F	Prof. Sangeeta Shukla Hon'ble Vice- Chancellor
2	Ms. Anjali Sikarwar	14/F	Prof. R. J. Rao
3	Mr. Anubhav	7/M	Prof. Anand Mishra, The Registrar
4	Ms. Arti	12/F	Prof. D. D. Agarwal
5	Mr. Dharmveer Gurjar	14/M	Prof. A. K. Shrivastava
6	Ms. Drashti Sengar	7/F	Prof. Nalini Shrivastava
7	Mr. Gaurav	9/M	Prof. Renu Jain
8	Mr. Imran	14/M	Prof. G.B.K.S Prasad
9	Mr. Ketan	10/M	Prof. Avinsah Tiwari
10	Ms. Khushi Bahgel	13/F	Prof. R. A. Sharma
11	Ms. Manisha Kohli	14/F	Prof. S. K. Dwivedi
12	Ms. Muskan	12/F	Prof. Suman Jain
13	Ms. Nandini	8/F	Prof. S.K. Shukla
14	Ms. Neelam	8/F	Prof. S. N. Mahapatra
15	Ms. Neha	14/F	Dr. harendra Sharma
16	Mr. Nitin Dhanuk	14/F	Dr. Nimisha Jadon
17	Mr. Rishu Tomar	7/F	Dr. Rakesh Kushwah
18	Mr. Rohit	5/M	Smt. Sagira Siddiqui
19	Mr. Rohit Sharma	7/M	Dr. I.K. Mansoori
20	Mr. Sachin Rajpoot	8/M	Dr. Rajeev Mishra
21	Ms. Saniya Sharma	12/F	Dr. Sameer S. Bhagyawant
22	Mr. Sahil	12/M	Dr. Santidev Sisodia
23	Ms. Shivani	13/F	Dr. Sapan Patel
24	Ms. Suneeta Banjara	13/F	Shri. Vishwarajan Gupta
25	Mr. Suraj Singh	13/M	Shri. Rajesh Nayak
26	Ms. Sushma Pal	14/F	Shri Abhaykant Mishra
27	Mr. Tanuj Tomar	8/M	Shri Bartariya

Jiwaji University has constituted JU society for T.B. patients on 4th June 2018. Under the JU Society, a committee has formed to adopt TB patients for caring of patients *vis-à-vis* medicare, awareness and personal help till cure of disease.



A total of 27 T.B. patients below 15 years of age from Gwalior were adopted by Professors, officers including Vice-Chancellor, Rector and Registrar of the University.

Protinex powder and fruits were distributed to these children patients for strengthening their immunity.

Professors and officers are in constant touch with these patients by way of doing



JU- SOCIETY CONNECT ACTIVITIES



Vice-Chancellor Prof. Sangeeta Shukla and Rector Prof. R. J. Rao, encouraged people in the society to adopt TB patients

Stop TB

in your lifetime.



Did you know that tuberculosis (TB) is **CURABLE** and treatment is **FREE**? If you have a bad cough that lasts 3 weeks or longer, fever, night sweats, chest pain and/or loss of appetite and weight, you should follow these steps!

1. Visit a TB DOTS clinic or local doctor immediately for tests. TB diagnosis is **FREE**.

2. Wait 2-3 days for your test results. Avoid coughing or sneezing near other people.

3. If you are diagnosed with TB, take all of your medication even if you start to feel better. Stopping treatment early can cause drug-resistance and make you even more sick later.

4. Congratulations! You are free of TB!



Published by
Registrar
Jiwaji University, Gwalior
Contact: 0751-2442801
www.jiwaji.edu